GULMOHAR INVESTMENTS AND HOLDINGS LIMITED

Regd Office: 324A, Illrd Floor, Aggarwal Plaza, Sector-14, Rohini, New Delhi-110 085 Email id:gulmoharlimited@gmail.com.Tel.:011-27860681.Website:gulmoharinvestments.com

CIN: L74110DL1982PLC013956

March 17, 2022

To

Metropolitan Stock Exchange of India Limited
(Formerly known as MCX Stock Exchange Limited)

4th Floor, Vibgyor Towers,
Bandra Kurla Complex, Bandra East,
Mumbai - 400 098

Symbol: GIHL

The Calcutta Stock Exchange Limited
7, Lyons Range,
Kolkata-700001

Scrip Code: 17433

Subject: Submission of Newspaper advertisement of Notice of EGM

SYMBOL: GIHL/ ISIN: INE204V01016

Dear Sir,

With reference to the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are submitting herewith the copy of newspaper advertisement of notice of EGM published in English language national daily newspaper circulating in the whole or substantially whole of India i.e. "Financial Express" and Hindi newspaper i.e. "Jansatta" as on Thursday, March 17, 2022.

We request you to kindly take the above information on record

Thanking You,

Yours faithfully,

For Gulmohar Investments and Holdings Limited

Pawan Kumar Mittal (Director)

DIN: 00749265

Encl. Notice of EGM

FINANCIAL EXPRESS

COMPANIES 13

Consumer preference shifting to **UVs in India:**

Crisil report

FE BUREAU Chennai, March 16

INDICATING A CLEAR shift in consumer preference, the share of utility vehicles (UVs) in the overall domestic passenger vehicle (PV) segment increased to 48% in the first nine months of fiscal 2022 from 15% about two decades ago (fiscal 2002) a whopping 3,300 basis points (bps) jump. This contradicts the long-held view that India is a small car market.

In its latest study, Crisil Research found that the share of small cars declined from 65% in fiscal 2012 to 45% in the first nine months of fiscal 2022.

This shift was felt more so in fiscals 2021 and 2022 as in-

come

senti-

ments

entry-

buyers

level

car

has

been

to

impac-

ted due

Covid-

In its latest study, **Crisil Research** found that the share of small cars declined from 65% in fiscal 2012 to 45% in the first nine months of fiscal 2022

19, which has also led to a spurt in UV sales share.

"Between fiscals 2021 and 2026, we expect UVs to outperform other segments and log a CAGR of 14-18% compared with just 4-6% in small cars. We also expect the share of the UV market to increase gradually to 51-53% in fiscal 2026," it said. The first nine months of fiscal 2022 saw several UV model launches such as Tata Punch, Mahindra XUV700, Skoda Kushaq, and Volkswagen Taigun.

For a long, the market has been skewed towards small car segments — including micro, mini and compact vehicles whose lengths vary from 3,200 mm to 4,000 mm — which have predictably drawn the most action from OEMs.

Crisil said the share of UVs in the PV market has risen steadily over the past decade, riding on new launches at attractive price points, GST differential leading to increased sales of sub 4m compact UV and changing consumer preferences. Lately, the semiconductor shortage that has impacted the production of small car market leader Maruti Suzuki has also led to an optical decrease in the share of small cars. The uptick in the UV segment is expected to continue in the near term, given all the major upcoming launches are in this segment, it added.

Ola Electric appoints Prabhakar Patil to its board

FE BUREAU Chennai, March 16

OLA ELECTRIC ON Wednesday said it has appointed former LG Chem Power CEO Prabhakar Patil to its board as the company has been investing deeply behind core R&D to create indigenous advanced cell technologies as well as large scale manufacturing of batteries. Prabhakar Patil has expertise in designing batteries for some of the leading EVs around the world.

In blogspot, Bhavish Aggarwal, founder & CEO, Ola, said that he was thrilled to announce the appointment of Prabhakar Patil to the Ola Electric board. "At Ola, we are investing deeply behind core R&D to create indigenous advanced cell technologies as well as invest into large scale manufacturing of batteries. We have already applied for the Indian government's \$2.4 billion PLI scheme for developing advanced cells and will set up a cutting edge cell manufacturing facility with

upto 50GWh capacity. Prabhakar's expertise will help us accelerate this process of bringing indigenously designed and manufactured cells to the

market," Aggarwal said. He further said it is scouting opportunities around the world for strategic investments into companies focused on advanced cell chemistry research as well as other battery technologies.

financialen epan.in

TEJAS Tejas Networks Limited

Regd. Office: J P Software Park, Plot No. 25, Sy. No. 13, 14, 17,18, Konnapana Agrahara Village, Begur Hobli, Bengaluru-560100, Karnataka Phone: +91-80-4179 4600 | Fax: +91-80-2852 0201 Website: www.tejasnetworks.com | Email: corporate@tejasnetworks.com

NOTICE OF THE POSTAL BALLOT

Members of Tejas Networks Limited (the "Company") are hereby informed that pursuant to Section 110 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 ("Act") (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force) read with Rule 20 and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (including any statutory modification(s) or re-enactment(s) thereof for the time being in force) ("Rules"), Regulation 44 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations"), General Circular Nos. 14/2020 dated April 8, 2020 and 17/2020 dated April 13, 2020 read with other relevant circulars, including General Circular Nos. 10/2021 dated June 23, 2021 and 20/2021 dated December 8, 2021, issued by the Ministry of Corporate Affairs, Government of India ("MCA Circulars"), the following resolutions are proposed to be passed by the Members through Postal Ballot only through the remote e-voting process:

- The appointment of Mr. N. Ganapathy Subramaniam (DIN: 07006215) as Non-Independent and Non-Executive Director (liable to retire by rotation) of the Company and as Nominee Director of Panatone Finvest Limited.
- 2. The appointment of Mr. A.S. Lakshminarayanan (DIN: 08616830) as Non-Independent and Non-Executive Director (liable to retire by rotation) of the Company and as Nominee Director of Panatone Finvest Limited
- 3. To approve entering into Material Related Party Transactions with Tata Communications Limited, a related party of the Company.
- 4. To approve entering into Material Related Party Transactions with Tata Consultancy Services Limited, a related party of the Company.

Members are hereby informed that the Company as on March 16, 2022 sent the Postal Ballot Notice dated March 14, 2022 through electronic mode to the Members of the Company whose names appear in the Register of Members / List of Beneficial Owners as received from Depositories i.e., National Securities Depository Limited (NSDL) / Central Depository Services (India) Limited as on Friday, March 11, 2022 and who have their e-mail addresses registered with the depositories for seeking approval by postal ballot only through remote e-voting. A person who is not a member as on March 11, 2022, should treat the postal ballot for information purpose only. The voting rights of the Members shall be in proportion to their shares in the total paid up equity share capital of the Company, as on Friday, March 11, 2022. The Postal Ballot Notice is also available on the website of the Company www.tejasnetworks.com, the relevant section of the website of BSE Limited ("BSE"): www.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited ("NSE"): www.nseindia.com on which the Equity Shares of the Company are listed and on the website of National Securities Depository Limited (NSDL): www.evoting.nsdl.com.

The Company has appointed NSDL for facilitating remote e-voting to enable the Members to cast their votes electronically. Members including those who are holding shares in physical form or who have not registered their e-mail addresses, can cast their votes by following the instructions mentioned in the Postal Ballot Notice dated March 14, 2022.

The remote e-voting period commences on Thursday, March 17, 2022 at 9.00 A.M. (IST) and ends on Friday, April 15, 2022 at 5.00 P.M. (IST). The remote e-voting module shall be disabled for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the Member, the Member shall not be allowed to change it subsequently.

The results of the Postal Ballot shall be declared on or before Sunday, April 17, 2022 along with the Scrutinizer's report, it will be communicated to the Stock Exchanges and will also be uploaded on the Company's website www.tejasnetworks.com and on the website of NSDL www.evoting.nsdl.com.

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Share holders and e-Voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800 1020 990 /1800 224 430 or send a request at evoting@nsdl.co.in. Alternatively, Members may also write to the Company Secretary of the Company at corporate@tejasnetworks.com or contact at telephone no.: +91-80-41876400.

> For and on behalf of the Board of Directors S/d-

Place: Bengaluru Date: March 16, 2022

before 05.00 p.m. by April 6, 2022.

DLOF before making an investment in the Issue.

INVENTURE MERCHANT BANKER SERVICES

Western Express Highway, Andheri (East),

redressal@inventuremerchantbanker.com

SEBI Registration No: INM000012003

Website: www.inventuremerchantbanker.com

Mumbai - 400 069, Maharashtra, India.

2nd Floor, Viraj Tower, Nr. Andheri Flyover (North End),

Email: compliance@inventuremerchantbanker.com

INVENTURE

WERCHANT BANKER SERVICES FUT, UTO.

Tel No: +91 22 4075 1500

Investor Grievance Email:

Contact Person: Arvind Gala

Date: March 16, 2022

Place: Mumbai

PRIVATE LIMITED

LEAD MANAGER TO THE ISSUE

N R Ravikrishnan Company Secretary ACS No: 7875

(This is a public announcement for information purpose only and not an offer document and not for publication or distribution, directly or indirectly outside India.)

N.C.L. RESEARCH AND FINANCIAL SERVICES LIMITED

Corporate Identification Number: L65921MH1985PLC284739

Our Company was originally incorporated as "Navneet Commercial Company Limited" on February 4, 1985 under the Companies Act, 1956, vide Certification of

Incorporation bearing registration number 7001 of 1985 issued by the Registrar of Companies, Uttar Pradesh, Kanpur. We received Certificate of Commencement

of Business dated April 15, 1985 issued by the Registrar of Companies, Uttar Pradesh, Kanpur. Subsequently, the name of our Company was changed to "N.C.L.

Research And Financial Services Limited" and a fresh Certificate of Incorporation consequent upon change of name was issued on September 9, 1992 by the Registrar

Registered Office: 3rd Floor, Bhagyodaya Building, 79 Nagindas Master Road, Fort, Mumbai - 400023, Maharashtra, India

Tel: +91 22 2270 3249 | Website: www.nclfin.com | E-mail: ncl.research@gmail.com Contact Person: Priya Mittal, Company Secretary and Compliance Officer

PROMOTERS OF OUR COMPANY: MR. VIJAY J. PODDAR ISSUE OF UP TO [●]/- EQUITY SHARES WITH A FACE VALUE OF ₹ 1/- EACH ("RIGHTS EQUITY SHARES") FOR CASH AT A PRICE OF ₹[●]/- PER RIGHTS EQUITY

SHARE (INCLUDING A PREMIUM OF ₹[•] PER RIGHTS EQUITY SHARE) FOR AN AMOUNT AGGREGATING UPTO ₹4,900.00 LAKHS ON RIGHTS BASIS IN THE RATIO OF [●]RIGHTS EQUITY SHARES FOR EVERY [●] FULLY PAID UP EQUITY SHARES) HELD BY THE EQUITY SHAREHOLDERS ON THE RECORD DATE, I.E. [●].

This public announcement is being made in compliance with the provisions of Regulation 72(2) of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and

Disclosure Requirements) Regulations, 2018 as amended (the "SEBI ICDR Regulations") to state that N.C.L. Research And Financial Services Limited is proposing, subject to requisite approvals, market conditions and other considerations, an issue of equity shares to its equity shareholders on rights basis and has filed the Draft

Letter of Offer ("DLOF") dated March 16, 2022 with the BSE Limited on March 16, 2022 Since the size of the Issue is less than ₹ 5,000 Lakhs, as per the SEBI (ICDR)

Pursuant to the Regulation 72(1) of the SEBI ICDR Regulations, the DLOF filed with BSE is open for public comments, if any. The DLOF is hosted on the website of

Company, website of the recognised stock exchange where the equity shares of the Company are listed i.e. BSE Limited at www.bseindia.com and website of the lead

manager i.e. Inventure Merchant Banker Services Private Limited at www.inventuremerchantbanker.com. All members of the public are hereby invited to provide their

comments on the DLOF to BSE with respect to the disclosures made in the DLOF. The public is requested to send a copy of the comments to BSE, to the Company

and to the Lead Manager to the issue at their respective addresses mentioned herein. All comments must be received by the Company or by the Lead Manager on or

This announcement has been prepared for publication in India and may not be released in anyother jurisdiction. Please note the distribution of the DLOF and issue of

equity shares on rights basis to person in certain jurisdictions outside India may be restricted by legal requirements prevailing in those jurisdictions. Accordingly, any

person who acquires Rightsentitlement or Rights Equity shares will be deemed to have declared, warranted and agreed that at the time of subscribing for the Rights

Equity Shares or the Rights Entitlements, suchperson is not and will not be in the United States and/or in the restricted jurisdictions. The Rights Equity Shares of the

Company have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or in any other jurisdiction which

have any restrictions in connection with offering, issuing and allotting Rights Equity Shares within its jurisdictions, and/or to its citizens. The offering to which the DLOF

relates is not, and under no circumstances is to be construed as, an offering of any Rights Equity Shares or Rights Entitlements for sale in the United States or any other

Investment in equity and equity related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in this Issue unless they can afford to take the risk

of losing theirinvestment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this Issue. For taking an investment decision,

Investors must rely on their own examination of our Company and the Issue including the risks involved. The Rights Equity Shares have not been recommended or

approved by SEBI nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of this DLOF. Investors are advised to refer to the "Risk Factors" beginning on page 19 of the

REGISTRAR TO THE ISSUE

PURVA SHAREGISTRY (INDIA) PRIVATE LIMITED

Shiv Shakti Industrial Estate, J. R. Boricha Marg.

Contact Person: Deepali Dhuri, Compliance Officer

Opp. Kasturba Hospital Lane, Lower Parel (E),

Mumbai - 400011, Maharashtra, India

SEBI Registration No: INR000001112

Tel No.: +91 22 2301 2518 / 8261

Email: support@purvashare.com

Investor Grievance Email:

support@purvashare.com

Website: www.purvashare.com

Regulations, the DLOF has not been filed with the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") nor SEBI shall issue any observation on the DLOF

jurisdiction other than India or as a solicitation therein of an offer to buy any of the said Rights Equity Shares or Rights Entitlements.

NOTE: All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the DLOF.

THE ISSUE PRICE IS [•] TIMES OF THE FACE VALUE OF THE RIGHTS EQUITY SHARES

Digital & Transaction Banking Department Corporate Centre, 2nd floor, Mafatlal Centre, Nariman Point, Mumbai - 400 021 E-mail - dgmdebitcards.dtb@sbi.co.in

Website: https://bank.sbi/, https://www.sbi.co.in NOTICE INVITING TENDER DATED: 17.03.2022 RFP No. SBI/EWLP/RFP/002/2021-22

Bids are invited by State Bank of India from eligible bidders for Engagemen of 'END TO END' LOYALTY PROGRAMME MANAGER FOR "ENTERPRISI WIDE LOYALTY PROGRAM (EWLP)" of State Bank of India. For details please visit Procurement News at https://bank.sbi/ https://www.sbi.co.in, https://etender.sbi/ Commencement of download of RFP: From 17.03.2022 at 17:00 hrs

Last date and time for submission of bids: 07.04.2022 up to 17:00 hrs

Place: Mumbai Deputy General Manager (Cards) Date: 17.03.2022 Digital & Transaction Banking Department

NEULAND LABORATORIES LIMITED

(CIN: L85195TG1984PLC004393) Registered office: 11th Floor (5th Level), Phoenix IVY Building, Plot No. 573A-III, Road No. 82, Jubilee Hills, Hyderabad, 500033,

Telangana, India Tel : +91-40-6761 1600 Website: www.neulandlabs.com email: ir@neulandlabs.com

Notice is hereby given that the following share certificates issued by the Company have been lost/ misplaced and the claimant thereof has applied to the Company for issuance of Letter of Confirmation in lieu of duplicate share

certificate No.	Nos.	shares	holder of shares
20447	2366301-2366400	100	Surendra Ranawat
852	85101-85200	100	Nalin P Shah
16333	1954901-1955000	100	Joint holder- Manan N Shah
THE RESERVE OF THE PARTY OF THE		Sammer State David on	

Public in general and investors as well as share brokers in particular are hereby cautioned against dealing in said share certificates in any manner whatsoever. Any person(s) who has/have any claim(s) in respect of the said share certificates should lodge such claim(s) with the Company's Registrar and Transfer Agents, KFin Technologies Limited (Formerly known as KFin Technologies Private Limited) at Selenium Tower B, Plot No 31 & Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally. Hyderabad 500032, within 15 days from the date of this notice, after which no claim will be entertained and the Company will proceed to issue Letter of Confirmation in lieu of duplicate share certificates.

For Neuland Laboratories Limited

Sarada Bhamidipati Date: 16.03.2022 Place: Hyderabad Company Secretary

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to

acceptance of advertising

copy, it is not possible to verify

its contents. The Indian

Express (P) Limited cannot be

held responsible for such

contents, nor for any loss or

damage incurred as a result of

transactions with companies,

associations or individuals

advertising in its newspapers

or Publications. We therefore

recommend that readers

make necessary inquiries

before sending any monies or

entering into any agreements

with advertisers or otherwise

acting on an advertisement in

any manner whatsoever.

OSBI

Notice is hereby given that the Extra Ordinary General Meeting of the members of Gulmohar Investments and Holdings Limited ("the Company") will be held on Friday, April 15, 2022 at 02: 00 P.M at 324A, Illrd Floor, Aggarwal Plaza, Sector-14, Rohini,

EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

GULMOHAR INVESTMENTS AND HOLDINGS LIMITED CIN:L74110DL1982PLC013956 Regd Office: 324A, Illrd Floor, Aggarwal Plaza, Sector-14, Rohini, New Delhi-110085 | Email id: gulmoharlimited@gmail.com Tel.: 011-27860681 | Website: gulmoharinvestments.com NOTICE

New Delhi-110085 ("the Meeting"). The Notice convening the Meeting has been sent to the members to their

registered address by courier and electronically to those members who have registered their e- mail address with the Depositories/Company as on the cut-off date he Friday, March 11,2022. Notice is available on the website of the Company (www.gulmoharinvestments.com)

The Company is providing to its members facility to exercise their right to vote on resolutions proposed to be passed at the Meeting by electronic means ("e-voting"). The communication relating to remote e-voting inter alia containing User ID and password, along with a copy of the Notice convening the Meeting, has been dispatched to the members. The format of communication for e-voting is available on the website of the Company: www.gulmoharinvestments.com and on the website of NSDL www.evoting.nsdl.com,

The remote e-voting facility shall commence on Tuesday, 12th April , 2022 from 9:00 a.m. and end on Thursday 14th April ,2022 at 5:00 p.m. The remote e-voting shall not be allowed beyond the aforesaid date and time.

Aperson, whose name appears in the Register of Members/ Beneficial Owners as on the cut-off date (Record date), i.e., Friday 08th April, 2022 only shall be entitled to avail the facility of remote e-voting /voting at the Meeting.

Any person who becomes member of the Company after dispatch of the Notice of the Meeting and holding shares as of the cut-off date may obtain the User ID and password inter alia by sending a request at evoting@nsdl.co.in. The detailed procedure for obtaining User ID and password is also provided in the Notice of the Meeting which is available on Company's website and NSDL's website. If the members already registered with NSDL for e-voting, he can use his existing User ID and password for casting the vote through remote e-voting.

Member who have cast their vote(s) by remote a-voting may also attend the meeting but shall not be entitled to cast the vote(s) again.

RECORD DATE

NOTICE is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 and applicable rules there under that the Company has fixed Friday 08th April, 2022 as the "Record Date" for the purpose of determining the members eligible to vote at the Extra Ordinary General Meeting.

For and on behalf of Board Gulmohar Investments and Holdings Limited

Date: 16.03.2022 Place: New Delhi

Pawan Kumar Mittal (Director) DIN: 00749265

ADVERTISEMENT FOR THE ATTENTION OF THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

ESCORTS LIMITED Registered Office: 15/5, Mathura Road, Faridabad, Harvana, 121003;

Corporate Identification Number (CIN): L74899HR1944PLC039088 Tel: 0129 - 2250222; Fax: 0129 - 2250009, Website: www.escortsgroup.com

OPEN OFFER FOR ACQUISITION OF UP TO 37,491,556 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH ("EQUITY SHARES"), REPRESENTING 28.42% OF THE EXPANDED VOTING SHARE CAPITAL OF ESCORTS LIMITED "TARGET COMPANY") FROM THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF THE TARGET COMPANY BY KUBOTA CORPORATION ("ACQUIRER") PURSUANT TO AND IN COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED (THE "SEBI (SAST) REGULATIONS") (THE "OPEN OFFER" OR "OFFER"), NO OTHER PERSON IS ACTING IN CONCERT WITH THE ACQUIRER FOR THE PURPOSE OF THIS OPEN OFFER This advertisement is being issued by Morgan Stanley India Company Private Limited, the manager to the Open Offer

"Manager/Manager to the Open Offer/Manager to the Offer"), for and on behalf of the Acquirer in respect of the Open Offer

- This Advertisement should be read in continuation of, and in conjunction with the:
- (a) public announcement dated 18 November 2021;

NEULAND

- (b) detailed public statement dated 25 November 2021 which was published on 26 November 2021 in the following newspapers Financial Express (English), Jansatta (Hindi), Satyajay Times (Hindi) and Navshakti (Marathi) ("Detailed Public Statement")
- (c) letter of offer dated 3 March 2022 along with the Form of Acceptance-cum-Acknowledgement ("Letter of Offer"); and (d) Pre-Offer Advertisement curn Corrigendum dated 10 March 2022 which was published on 11 March 2022 in the following
- newspapers: Financial Express (English), Jansatta (Hindi), Satyajay Times (Hindi) and Navshakti (Marathi). This Advertisement is being published in all such newspapers in which the Detailed Public Statement and the Pre-Offer Advertisement cum Corrigendum, was published.

Capitalised terms used but not defined in this Advertisement shall have the same meaning assigned to such terms in the

The Public Shareholders of the Target Company are requested to kindly note the following information related to the Open Offer that has already been disclosed in the Letter of Offer:

Schedule of Major Activities relating to the Open Offer The schedule of major activities pertaining to the Open Offer, as already disclosed on page 2 of the Letter of Offer is

reiterated as follows: Original Schodula | Pavisad Schodula

No.	Name of Activity	Original Schedule of Activities (Day and Date)* (As disclosed in the DLoF)	Revised Schedule of Activities (Day and Date)	
3.	Issue of Public Announcement	Thursday, 18 November 2021	Thursday, 18 November 2021	
2,	Publication of the DPS in newspapers	Friday, 26 November 2021	Friday, 26 November 2021	
3.	Last date for filing of the draft Letter of Offer with SEBI	Friday, 3 December 2021	Friday, 3 December 2021	
4.	Last date for public announcement for competing offer(s)	Friday, 17 December 2021	Friday, 17 December 2021®	
5.	Last date for receipt of comments from SEBI on the draft Letter of Offer (in the event SEBI has not sought clarification or additional information from the Manager to the Open Offer)		Wednesday, 23 February 2022 **	
6,	Identified Date*	Tuesday, 28 December 2021	Friday, 25 February 2022	
7.	Last date for dispatch of the Letter of Offer to the shareholders of the Target Company whose names appear on the register of members on the Identified Date			
8.	Last date by which a committee of independent directors of the Target Company is required to give its recommendation to the shareholders of the Target Company for this Open Offer	Friday, 7 January 2022	Thursday, 10 March 2022	
9,	Last date for upward revision of the Offer Price and/or the Offer Size	Friday, 7 January 2022	Thursday, 10 March 2022	
10.	Date of publication of Open Offer opening public announcement, Monday, in the newspapers in which the DPS has been published 10 January 2023		Friday, 11 March 2022	
11.	Date of commencement of the Tendering Period Tuesday, 11 January 2022		Monday, 14 March 2022	
12.	Date of closure of the Tendering Period Monday, 24 January 2022		Monday, 28 March 2022	
13.	Last date of communicating the rejection/acceptance and completion of payment of consideration or refund of Equity Shares to the shareholders of the Target Company Tuesday, 8 February 2022		Monday, 11 April 2022	
14.	Last date for publication of post Open Offer public announcement in the	Tuesday,	Wednesday,	

newspapers in which the DPS has been published There has been no competing offer.

Date falling on the 10" Working Day prior to the commencement of the Tendering Period. The Identified Date is only for the purpose of determining the Equity Shareholders as on such date to whom the Letter of Offer would be sent. All the Public Shareholders (registered or unregistered), are eligible to participate in this Open Offer at any time prior to the closure of

20 April 2022

Adfactors 601

15 February 2022

The original schedule of activities were indicative (prepared on the basis of timelines provided under the SEBI (SAST) Regulations) and were subject to receipt of relevant approvals from various statutory/regulatory authorities. ** Actual date of receipt of SEBI comments.

The web link for accessing the "Procedure for Acceptance and Settlement of the Open Offer" as already disclosed at Section VIII of the Letter of Offer at pages 47 to 51 of the Letter of Offer is as follows: https://crimg.kfintech.com/bmails/files/Escorts_Tendering_procedure.pdf The web link for accessing the "Form of Acceptance-cum-Acknowledgement" as already provided at pages 72 to 81 of the

Letter of Offer, with the instructions relating to the "Form of Acceptance-cum-Acknowledgement" at pages 66 to 71 of the Letter of Offer is as follows: https://crimg.kfintech.com/bmails/files/Escorts Form of Acceptance.pdf The web link for accessing the "Form No. SH-4 Securities Transfer" as already dispatched to the Public Shareholders holding

physical Equity Shares along with the Letter of Offer is as follows: https://crimg.kfintech.com/bmails/files/Escorts_SH4.pdf The web link for accessing Letter of Offer (also available on SEBI's website) is as follows: https://crimg.kfintech.com/bmails/files/ESCCAS_LOF.pdf

The Acquirer and its directors accept full responsibility for the information contained in this Advertisement (other than such information as has been obtained from public sources or provided by or relating to and confirmed by the Target Company), and undertake that they are aware of and will comply with their obligations under the SEBI (SAST) Regulations in respect of

Registrar to the Open Offer

This Advertisement would also be available on SEBI's website (www.sebi.gov.in). Issued on behalf of the Acquirer by the Manager

Morgan Stanley

Morgan Stanley India Company Private Limited SEBI Registration Number: INM000011203 Address: 18F, Tower 2, One World Center, Plot 841 Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013, India Contact Person: Mr. Prakhar Jaju Tel: 91 22 6118 1000; Fax: 91 22 6118 1040 E-mail: escorts_openoffer@morganstanley.com

Website: https://www.morganstanley.com/about-us/global-offices/india

KFINTECH

KFin Technologies Limited SEBI Registration Number: INR000000221 Address: Selenium, Tower B, Plot No- 31 and 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddi - 500 032, Telangana, India Contact person: M Murali Krishna Telephone: +91 40 6716 2222; Fax: +91 40 2343 1551 Website: www.kfintech.com E-mail: el.openoffer@kfintech.com

Issued by the Manager to the Open Offer

For and on behalf of the Acquirer Signed for and on behalf of Kubota Corporation (Acquirer)

Name: Seiji Fukuoka Title: General Manager, Tractor Business Planning & Control Department

Place: 2-47, Shikitsuhigashi 1-chome, Naniwa-ku, Osaka 556-8601 Japan

New Delhi

Date: 16 March 2022

post-Issue related problems.

Priya Mittal

Letter of Offer including the section "Risk Factors" beginning on page 19 of the Draft Letter of Offer before making an investment in the Issue.

Website: www.nclfin.com E-mail: ncl.research@gmail.com

On behalf of the Board of Directors For N.C.L. Research And Financial Services Limited

market conditions and other considerations, to issue its equity shares on rights basis and has filed a Draft Letter of Offer with the BSE. The Draft Letter of Offer shall be available on the website of Issuer Company at www.nclfin.com, the website of the Lead Manager at www.inventuremerchantbanker.com and the website of BSE Limited at www.bseindia.com. Investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk. For details investors should refer to and rely on the Draft

79 Nagindas Master Road, Fort, Mumbai - 400023, Maharashtra, India Tel NO.: +91 22 2270 3249

COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE

OFFICER

N.C.L. RESEARCH AND FINANCIAL SERVICES LIMITED

Members are advised to contact the Company Secretary and Compliance Officer or Registrar to the Issue or the Lead Manager for any pre-Issue or

Disclaimer: N.C.L. Research And Financial Services Limitedis proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals,



Gen Next, सेक्टर 62,

नोएडा शाखा

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी एक्ट) 2002 के अंतर्गत प्रतिभृतिहित नियम 2002 के नियम 13(2) के अन्तर्गत यह सूचना जारी की जाती है। बँक ऑफ बड़ौदा से प्राप्त किये गये ऋण जो कि एन पी ए हो चुके हैं व जिसमें निम्न वर्णित दिनांक को निम्नवर्णित बकाया राशि शेष थी उसकी विस्तृत मांग सूचना निम्नवर्णित ऋणियों एवं जमानतदारों को वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पूनर्गठन एवं प्रतिभृतिष्ठित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत निम्न वर्णित दिनांकों को पंजीकत डाक पावती सहित / स्पीड पोस्ट/कोरियर द्वारा आप सभी को भेजी गयी थी, जिसकी पावती प्राप्त नहीं हुई / जो बिना तामील वापस प्राप्त हो गयी है। मांग सूचना निम्नांकित दिनांकों में हमने आशय को स्पष्ट कर दिया था, कि आपके द्वारा सूचना में दर्शायी राशी 60 दिनों के अन्दर जमा नहीं करायी गयी तो उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अनुसार बँक में बंधक सम्पत्तियाँ जो कि निम्नलिखित ऋणियों / जमानतदारों के नाम है, उनका आधिपत्य ले लिया जायेगा और कब्जा सूचना / ई-नीलमी सूचना में कर्जदार व गारंटरों की फोटो प्रकाशित की जायेगी। बकाया राशि का विवरण निम्नानुसार है:--

कर्जदार / गारन्टर के नाम	मांग सूचना की तारीख	सिक्योर्ड	
एनपीए की तारीख	बकाया राशि	आस्तियों का विवरण	
श्री सिद्धांत तिवारी,	मांग सूचना की तारीख	फ्लैट नं. 1904,19वां तल,	
श्रीमती रीता श्रीनिवास नेयक, श्रीमती माधवी तिवारी	07-03-2022	टॉवर—बी, ऐश्वर्याम, गौर	
पता 1: 21/07, अशोक रोड, शिप्रा सनसिटी इंदिरापुरम, गाजियाबाद—201014 पता 2: पलैट नं. 1904, 19वां तल, टावर बी, ऐश्वर्याम, गौर सिटी 2, जीसी उजी/जीएच 3 सेक्टर 16सी, ग्रेटर नोएडा, यूपी—201301 पता 3: एमएम 500, सेक्टर डी1, एलडीए कॉलोनी, कानपुर रोड, लखनक, यूपी. — 226012	0.37,13,300.007	सिटी 2, जीसी 3जी / जीएच 3 सेक्टर 16 सी, ग्रेटर नोएडा यूपी 201301 में स्थित	
ऋण खाते को एनपीए घोषित करने की तिथिः 14-02-2022			

उक्त वर्णित ऋणियों ✓ जमानतदारों को सलाह है कि (1) अधिक एवं विस्तृत जानकारी के लिए अधोहस्ताक्षरी से मृत नोटिस प्राप्त कर लें (2) मांग सुचना में दर्शायी गयी बकाया राशि ब्याज एवं खर्चे आदि सहित मांग सुचना की दिनांक के 60 दिनों के भीतर जमा करें ताकि सरफेसी अधिनियम के तहत अग्रिम कार्यवाही से बच सकें।

दिनांक : 15-03-2022, स्थान : गाजियाबाद

प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा

बिक्री सूचना

सैमटेल कलर लिमिटेड (परिसमापन के अंतर्गत) परिसमापकः श्री संजय गुप्ता परिसमापक का पताः ई-10 ए, कैलाश कॉलोनी, ग्रेटर कैलाश-।, नई दिल्ली-110048 ई-मेलः samtel@aaainsolvency.com, sanjaygupta@aaainsolvency.com, assetsale1@aaainsolvency.com,

र्ड—नीलामी

मोब.: 8800865284 (श्री राज कुमार और श्री पुनीत सचदेवा)

ऋणशोधन क्षमता और दिवालिया संहिता 2016 के तहत परिसंपत्तियों की बिक्री ई-नीलामी की तिथि और समय: 6 अप्रैल, 2022 को अपराहन 3.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक (5 मिनटों प्रत्येक के असीमित विस्तार के साथ) ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथिः 4 अप्रैल, 2022

माननीय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 04 जुलाई 2018 के आदेश द्वारा नियुक्त परिसमापक द्वारा गठित परिसमापन संपदा के हिस्से के रूप में **सैमटेल कलर लिमिटेड (परिसमापन के अंतर्गत)** के स्वामित्व वाली परिसंपत्तियों और संपत्तियों की बिक्री। बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा ई-नीलामी प्लेटफॉर्म https://aaa.auctiontiger.net के माध्यम से की जाएगी।

परिसंपति	ब्लॉक	आरक्षित मूल्य (रु. में)	धराज राशि (क. में)	वृद्धिशील मूल्य (रु. में)
कारखाना भूमि और भवन (65.023 एकड): ग्राम-छपरीला, मुख्य गानियाबाद-दादरी जो बुलंदशहर रोड, गानियाबाद के नाम से जाना जाता है।	ų	126 करोड़	6.3 करोड	50 लाख
प्लॉट नं. आर/10, सेक्टर-9, राजनगर, गाजियाबाद, उ.प्र201002 में खड़ी की गई व्हीकल नाम टोयटा कैसी	यो	63 हजार	7 हजार	५ हम्बर

ई-नीलामी के नियम और शर्ते निम्नानुसार हैं:

- ई-नीलामी अनुमोदित सेवा प्रदाता मैसर्स ई-प्रोवयोरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (ऑक्शन टाइगर) के मध्यम से "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है" और "वहां जो कुछ भी है आधार" पर आयोजित की जाएगी।
- इच्छक बोलीदाता को "सैमटेल कलर लिमिटेड परिसमापन एसी", खाता नं. 0012894239, कोटक महिन्द्रा चैंक, शाखा सी-78, मालवीय नगर दिल्ली-110017 आईएफएससी कोड : KKBK000194 की खाता में डीडी/एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा अथवा "सैमटल कलर लिमिटेड परिसमापन खाता" के नाम में किसी अनसचित बैंक के डीडी परोहर राशि (इंएमडी) का भगतान करना होगा अथवा सम्पूर्ण ई-नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज में दी गई प्रारूप के अथवा प्रारूप खे के अनुसार
- सफल बोलीदाता को ईएमडी आंशिक बिक्री प्रतिफल के लिए रखी जाएगी और असफल बोलीदाताओं की ईएमडी वापस कर दी जाएगी। परिसमापक एच2 बोलीदाता की ईएमडी भी अपने पास रख सकते हैं। ईएमडी पर कोई ब्याज नहीं होगा। परिसमापक सफल बोलीदाता को आशय पत्र (एलओआई) जारी करेंगे और सफल बोलीदाता को परिसमापक द्वारा एलओआई जारी किए जाने के 30 दिनों के भीतर शेष राशि (सफल बोली राशि - ईएमडी राशि) जमा करनी होगी।
- एलओआई में उल्लिखित समय सीमा के भीतर सफल बोलीदाता द्वारा शेष राशि जमा करने में युक्त करने पर सफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई पूरी राशि (ईएमडी कोई अन्य राशि) को जब्त कर लिया जाएगा। ऐसे मामले में, परिसमापक के पास सफल बोलीदाता बनने के लिए एच2 बोलीदाता को आमंत्रित करने का अधिकार होगा।
- सफल बोलीदाता को नीलामी पर रखी गई सम्पत्ति के मामले में लाग होने कले स्टाम्प शुल्कों, शुल्कों तथा सभी सांविधिक गैर-सांविधिक देयताओं, करों, रेटस, गणना प्रभारों, शुरूकों आदि का भी वहन करना होगा।
- परिसमापक को किसी भी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने या ई-नीलामी को स्थिगत/निरस्त/रह करने या किसी भी स्तर पर नीलामी की कार्यवाही से किसी भी संपत्ति या उसके हिस्से को बिना कोई कारण बताए वापस लेने का पूर्ण अधिकार है।
- सभी नियमों एवं शर्तों को एएए इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेरनल्स एलएलपी की वेबसाईट अर्थात् https://insolvencyandbankruptcy.in पर तथा ईएमडी जमा करने की प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व ई-नीलामी प्रक्रिया दस्तावेजों में अनिवार्य रूप से देख लेना चाहिये। परिसमापक से samtel@aaainsolvency.com पर संपर्क किया ज संजय गुप्ता

सैमटेल कलर लिमिटेड के मामले में परिसमापक आईबीबीआई (पंजीकरण संख्या- आईबीबीआई/आईपीए-001/आईपी-00117/2017-18/10252)

स्थानः नई विल्ली विनांकः 16.03.2022

सीमा में बसाक सम्पत्ति को रीदीम (मोचन) कर सकते हैं।

पताः ई-10ए, कैलाश कॉलोनी, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली-110048 ई-मेल samtel@aaainsolvency.com, sanjaygupta@aaainsolvency.com संपर्क व्यक्तिः 91-8800865284 (श्री राज कुमार और श्री पुनीत सचदेवा)

ऐक्सिस बैंक आधिपत्य नोटिस

रिटेल एसेटस सेंटर: प्रथम तल, जी–4/5 बी सेंटर–4, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ– 226010

रिजिस्टर्ड ऑफिसः (त्रिशुल), तुतीय तल, समराथेश्वर मंदिर के सामने, लॉ गार्डन के पास, एलिसब्रिज, अहमदाबाद—380006 जबिक, अधोहस्ताक्षरी, ऐक्सिस बैंक लि0 के प्राधिकारी, न सिक्योरिटाइजशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेन्शियल एसेट्स एण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के अन्तर्गत तथा सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेंट) रूल, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस जारी किये गये। उक्त वर्णित उधारकर्ता राशि का भूगतान करने करने में असफल रहे है, अतः उक्त वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से एवं सर्वसाधारण को एतदद्वारा सचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उन्हें उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त एक्ट की धारा 13(4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कब्जा ले लिया है। उपरोक्त वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को एतदद्वारा सावधान किया जाता है कि उक्त सम्पत्ति के साथ कोई सौदा न करें तथा उक्त सम्पत्ति के साथ किया जाने वाला कोई सौदा एक्सिस बैंक लि0 के साथ उक्त नोटिस में वर्णित वार्षिक ब्याज, अनुशंगी व्यय, लागत, प्रभार इत्यादि समेत से प्रभावी, मॉर्टेगेज के विषयाधीन होगा।

ऋणी / सह—ऋणी / बंधककर्ता एवं जमानतकर्ता का ध्यान सरफेसी एक्ट की धारा 13(8) की ओर आकृष्ट किया जाता है कि तय समय

सामा में बन्धक सम्पात्त का रांडाम (माचन) कर सकत है।		
खातेदार / गारन्टरों का नाम एवं पता	सुरक्षित सम्पत्ति का विवरण	मांग नोटिस के अनु सार बकाया राशि मांग सूचना की तिथि कब्जे की तिथि
सरवजीत कौर (ऋणी) पत्नी भजन प्रीत सिंह, सुरजीत सिंह (सह—ऋणी) पुत्र सुरेन्दर सिंह, दोनों का पताः 1— ग्राम शादीनगर हजीरा मिलक खानम, रामपुर सौर, प्रथमा बैंक के पास, रामपुर (उ०प्र०) 244921, पताः 2— ग्राम अहरौला बिलासपुर पोस्ट कदम, गुरूद्वारा के पास, जिला रामपुर (उ०प्र०) 244921	भूमि/सम्पत्ति स्थित खसरा नं0 301/2 ग्राम शादीनगर हजीरा, प्रथमा बैंक के पास, तहसील स्वर जिला, रामपुर एरियाः 167.22 वर्ग.मी., सम्पत्ति श्रीमती सरवजीत कौर के नाम। चौहद्दीः पूर्व— गुरुबाज सिंह का मकान, पश्चिम— हरविंदर सिंह की दुकान एवं रास्ता, उत्तर— 40 फीट चौड़ा रोड (मटखेरा/ बिलासपुर रोड), दक्षिण— गुरवाज सिंह की भूमि	रू0 21,89,999/- रू0 1,07,795/- दि. 03.09.2021 तक+देय ब्याज एवं अन्य खर्चे 14.09.2021
अश्विनी कुमार सिंह (ऋणी) पुत्र श्री पारस नाथ सिंह, पताः बांदिया गोतिया पोस्ट एवं तहसील किच्चा, जिला यू.एस. नगर, उत्तराखण्ड 263148 जेला उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड एरियाः 484.36 वर्ग वौहद्दीः पूर्व— पॉवर हाउस, पश्चिम— बाई पास रोड, उ का प्लॉट।	नं0 197/2, स्थित किच्चा (हल्दवानी बाई पास चौक से अम्बेडकर चौक) तहसील किच्चा, .मी. सम्पत्ति श्री अश्विनी कुमार सिंह के नाम।	रू० 7,72,925/- दि. 01.10.2021 तक+देय ब्याज एवं अन्य खर्चे 25.11.2021 14.03.2022
मै0 रघु एंटरप्राइजेज (राम रघु हॉस्पिटल), (ऋणी) पताः 1— सी/ओ 5, रघुनाथ नगर, चर्च रोड, आगरा 282002 पार्टनर मनीश बंसल, पताः 2— सी/ओ 3, 4 एवं 5, सुरेश प्लाजा, एम.जी. रोड आगरा उ0प्र0 282002, श्रीमती मंजुलिका बंसल (पार्टनर) पत्नी स्व0 श्री सुरेश नाथ बंसल, मनीश बंसल (पार्टनर) पत्नी मनीश बंसल श्रीमती पूजा बंसल (पार्टनर) पत्नी मनीश बंसल श्रीमती पूजा बंसल (पार्टनर) पत्नी स्व0 श्री विवेक बंसल, यशवी बंसल पुत्री श्री विवेक बंसल, चैतन्य बंसल पताः 601—602, हील हाउस अपार्टमेंट्स सुरेश प्लाजा, ए	प्रथम तल, राम रघु प्लाजा, सम्पत्ति नं० 33 का भाग (नगर निगम नं० 6/379), खंदारी रोड, तहसील एवं जिला आगरा, एरियाः 290.72 वर्ग मी.,चौहद्दीः पूर्व— शांति सिटी सेंटर कॉम्प्लेक्स, पश्चिम—अट्रियम कॉम्प्लेक्स, उत्तर— खुला आसमान/24 मी. चौड़ा रोड, दक्षिण— अन्य की सम्पत्ति। (नाबालिग) पुत्र स्व श्री विवेक बंसल, सभी का	दि. 01.01.2022 तक+देय ब्याज एवं अन्य खर्चे
गौरी रस्तोगी (ऋणी) पत्नी अमित रस्तोगी, पताः 1— मकान नं0 286, साहुकारा 1 बिलासपुर एयरटेल टॉवर के पास जिला रामपुर उ०प्र० 244921, पताः 2— मकान नं0 9, ईश्वर कॉलोनी, रामपुर देहात रूद्रपुर यू.एस. नगर यू.के. 263153, ओम प्रकाश (सह—ऋणी) पुत्र सुम्मेरी, पताः मकान नं0 11, कपनेरी सिलाई बारा गॉव जिला रामपुर उ०प्र० 243701, अशोक कुमार पुत्र ओम प्रकाश, पताः मकान नं0 116, साहुकारा 1 बिलासपुर जिला रामपुर उ०प्र० 244921, कुसुम रानी पत्नी अशोक कुमार, एयरटेल टॉवर के पास जिला रामपुर उ०प्र० 244921, पताः रूद्रपुर यू.एस. नगर यू.के. 263153	आवासीय सम्पत्ति स्थित आवासीय एवं व्यवसायिक भवन, मोहल्ला श्री मियान एवं साहुकारा वार्ड नं० 18, बिलासपुर जिला रामपुर उ०प्र० 244921 एरियाः 64.00 वर्ग.मी., सम्पत्ति श्रीमती कुसुम देवी के नाम। चौहद्दीः पूर्व—राधे श्याम का मकान, पश्चिम— रोड, उत्तर— अन्य का मकान, दक्षिण— शिव शंकर का मकान। पताः 1— मकान नं० 286, साहुकारा, बिलासपुर वताः 2— मोहल्ला श्री मियान एवं साहुकारा वार्ड	रू0 33,23,327.9 रू0 56,058.70 दि. 03.12.2021 तक+देय ब्याज एवं अन्य खर्चे 02.12.2021 14.03.2022
तारिक मुर्तज़ा (ऋणी) पुत्र मुर्तजा अली पताः 217, नरपत नगर, नीम वाली जियारत के पास, तहसील स्वर रामपुर सिटी जिला रामपुर, 244901 उ0प्र0, मुर्तज़ा अली खान (सह—ऋणी) पुत्र मुनव्वर अली खान पताः 1— 54 कलगर, नालापार, नीम वाला जियारत के पास, तहसील स्वर, रामपुर सिटी, जिला रामपुर 244901 उ0प्र0, पताः 2— गेट नं0 302, ग्राम सैन्जनी ननकार ब्लॉक सैदनगर, नई मस्जिद के पास तहसील सदर जिला रामपुर	सैन्जनी ननकार, ब्लॉक सैदनगर, नई मस्जिद के पास, तहसील सदर, जिला रामपुर 244901 उ०प्र० एरियाः 83.64 वर्ग.मी., सम्पत्ति मुर्तजा अली खान के नाम। चौहद्दीः सेल डीड के अनुसारः पूर्व— रोड 10 फीट चौड़ा, पश्चिम— विक्रेता की सम्पत्ति, उत्तर— अन्य का मकान, दक्षिण— रोड 15 फीट चौड़ा। चौहद्दी साइट के अनुसार— पूर्व— रोड 10 फीट चौड़ा,	रू० 17,49,541.1 रू० 49,583.25 दि. 11.10.2021 तक+देय ब्याज एवं अन्य खर्चे 11.10.2021 14.03.2022

नई मस्जिद के पास, तहसील सदर, जिला रामपुर पश्चिम— मेहराज का प्लॉट, उत्तर— हाजी

रफीक का मकान, दक्षिण— रोड 15 फीट चौड़ा

प्राधिकृत अधिकारी, एक्सिस बैंक लि0

गुलमोहर इन्वेस्टमट्स एण्ड होल्डिंग्स लिमटेड सीआईएन :L65993DL1982PLC013956

पंजीकृत कार्यालय : 324ए, तीसरी मंजिल, अग्रवाल प्लाजा, सेक्टर-14, रोहिणी, नई दिल्ली-110085 ई-मेल :gulmoharlimited@gmail.com | दूरभाष: 011-27860681 वेबसाइट :www.gulmoharinvestments.com

सुचना

असाधारण आम बैठक

एतदुद्वारा सूचना दी जाती है कि गुलमोहर इन्वेस्टमेंट्स एण्ड होल्डिंग्स लिमिटेड ('कम्पनी') के सदस्यों की असाधारण आम बैठक शुक्रवार, 15 अप्रैल, 2022 को 02.00 बजे अप. में 342ए, तीसरी मंजिल, अग्रवाल प्लाजा, सेक्टर-14, रोहिणी, नई दिल्ली-110085 पर आयोजित की जायेगी ('बैठक')। बैठक के आयोजन की सचना उन सदस्यों के पास इलेक्टॉनिक रूप से भेज दी गयी है जिन्होंने कट-

ऑफ तिथि अर्थात शुक्रवार, 11 मार्च, 2022 तक अपने ई-मेल पते डिपॉजिटरी/कम्पनी के साथ कराये हैं। यह सूचना कम्पनी (www.gulmoharinvestments.com) पर उपलब्ध है।

कम्पनी इलेक्ट्रॉनिक साधनों ('ई-वोटिंग') द्वारा बैठक में पारित किये जाने वाले संकल्पों पर अपने

मताधिकार का उपयोग करने के लिए सदस्यों को मतदान की सुविधा उपलब्ध करा रही है। अन्य बातों के साथ-साथ रिमोट ई-वोटिंग तथा बैठक आयोजित करने की सुचना की प्रति सहित यूजर आईडी एवं पासवर्ड सदस्यों के पास भेजे जा चुके हैं। ई-वोटिंग हेतु सम्पर्क का प्रारूप कम्पनी की वेबसाइटः www.gulmoharinvestments.com तथा एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।

रिमोट ई-वोटिंग सुविधा मंगलवार 12 अप्रैल, 2022 को 9.00 बजे प्रातः से प्रारम्भ होगी तथा बहरपतिवार, 14 अप्रैल, 2022 को 5.00 बजे सायं समाप्त होगी। उपर्यक्त तिथि एवं समय के उपरान्त

रिमोट ई-वोटिंग की अनमति नहीं होगी। कोई व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि (रिकॉर्ड तिथि) अर्थात शुक्रवार, 8 अप्रैल, 2022 तक सदस्यों/लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है केवल वे रिमोट ई-वोटिंग/बैठक के दौरान वोटिंग की सुविधा ग्रहण करने के पात्र होंगे।

कोई व्यक्ति जो बैठक की सुचना भेजे जाने के उपरान्त कम्पनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि तक शेयर धारण करता है वह अन्य बातों के साथ-साथ evoting@nsdl.co.in पर निवेदन भेजकर युजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। युजर आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रिया बैठक की सूचना में भी उपलब्ध है जो कम्पनी तथा एनएसडीएल की वेबसाइट पर उपलब्ध है। यदि सदस्य ई-वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकत है तो वह रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से मतदान के लिए मौजूदा यूजर आईडी तथा पासवर्ड का उपयोग कर सकता है। बैठक में उपस्थित होने वाले वे सदस्य जिन्होंने ने ई-वोटिंग द्वारा मतदान नहीं किया है वे बैलट पेपर के माध्यम से मतदान कर सकते हैं।

जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा मतदान किया है वे भी बैठक में भाग ले सकते हैं किन्तु वे दुबारा मतदान करने के पात्र नहीं होंगे।

रिकॉर्ड तिथि

एतद्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 तथा उसके तहत प्रयोज्य नियमों के अनुसार यह सुचना भी दी जाती है कि कम्पनी ने असाधारण आम बैठक में सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने के उद्देश्य से शुक्रवार, 8 अप्रैल, 2022 को ''रिकार्ड तिथि'' के रूप में निर्धारित किया है।

कृते एवं हिते बोर्ड गुलमोहर इन्वेस्टमेंट्स एण्ड होल्डिंग्स लिमिटेड

तिथि : 16.03.2022 स्थान : नई दिल्ली

पवन कुमार मित्तल (निदेशक) डीआईएन : 00749265

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः 11वां तल, टॉवर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोवर पार्ले, मुंबई—400013 शाखा पताः टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, बी-36, प्रथम एवं द्वितीय तल,

अचल संपत्ति के विक्रय हेतु सूचना

लाजपत नगर-पार्ट २, एचडीएफसी बैंक के ऊपर, नई दिल्ली-110024

(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के अंतर्गत) प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसम्पित्तयों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों के विक्रयार्थ ई-नीलामी सूचना

एतदद्वारा जनसाधारण को तथा विशेष रूप में निम्न ऋणकर्ता तथा / सह-ऋणकर्ता, अथवा उनके विधिक उत्तराधिकारियों / प्रतिनिधियों (ऋणकर्ताओं) को विशिष्ट रूप में सचित किया जाता है कि टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि. (टीसीएचएफएल) के पास बंधककृत निम्न विवरणित अचल संपत्ति, जिसका भौतिक कब्जा टीसीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, का विक्रय जो है वो 26 अप्रैल 2022 को ''जैसी है जहां है'' एवं ''जैसी है जो है'' और ''वहां जो कछ भी हैं" आधार पर, निम्न वर्णित ऋणकर्ताओं एवं सह-ऋणकर्ताओं की ओर से बकाया देयराशियों की वसूली के लिए किया जाएगा। आरक्षित मूल्य तथा धरोहर राशि जमा का उल्लेख नीचे किया गया है। एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि विक्रय के किसी स्थगन/समापन की अनुपस्थिति में, उक्त प्रतिभूत परिसंपत्ति / संपत्ति का विक्रय ई-नीलामी द्वारा उक्त 26 अप्रैल 2022 को अप. 2.00 बजे कर दिया जाएगा। ई-नीलामी में प्रतिभागिता करने के लिए धराज के डिमांड ड्राफ्ट से युक्त मोहरबंद लिफाफा टीसीएचएफएल के प्राधिकत अधिकारी के पास 25 अप्रैल 2022 को सायं 5 बजे तक अथवा इससे पूर्व शाखा के पते, टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, बी-36, प्रथम एवं द्वितीय तल. लाजपत नगर – पार्ट २. एचडीएफसी बैंक के ऊपर, नई दिल्ली-110024 पर प्रस्तुत / जमा करना होगा।

प्रतिभूत परिसंपत्ति / अचल संपत्ति का विक्रय जो है, वह यहां इसमें निम्न विवरणित संक्षिप्त विवरणों के अनुसार ''जैसी है जहां है अवस्था'' पर आधारित होगाः

क्र. सं.	ऋण खाता सं.	ऋणकर्ता(ऑ)/ सह—ऋणकर्ता(ऑ)/ विधिक उत्तराधिकारी(यो)/ विधिक प्रतिनिधि/ गारंटर(रों) के नाम	मांग सूचना के अनुसार राशि तथा मांग सूचना की तिथि	आरक्षित मूल्य धरोहर राशि रु.
1.	10011103	श्री सचिन गुप्ता (ऋणकर्ता), श्रीमती श्वेता गुप्ता (सह—ऋणकर्ता)	₹. 77,58,710 / −	1,06,59,000 /-
		3411 (116 16-14/11)	23 जून 2021	रु. 10,65,900 ∕ −

अचल संपत्ति का विवरणः संपत्ति 1ः संपूर्ण द्वितीय तल के समस्त वह भाग तथा अंश, जो छत / टेरेस अधिकारों के बिना हैं जो उक्त स्वामित्वधारक संपत्ति सं. 64 में से पॉकेट 06, सेक्टर-24 में है, जिसका क्षेत्र मापन 60 वर्ग मीटर, और जो रोहिणी आवासीय योजना के लेआउट प्लान, दिल्ली में स्थित है, जिसमें भतल से लेकर के शीर्ष तल तक लिफ्ट एवं सीढियों के उपयोग के सामान्य अधिकार सिम्मलित हैं, जो उससे संबद्ध भूमि के 1/4 अनुपाताधिकारों के साथ है और जो वहां उसमें उसके अंदर पृथक बिजली, जल मीटरों और सामान्य जल-मल यानी सीवरेज संयोजनों यानी कनेक्शनों से फिट है, जो इस प्रकार परिसीमित है पूर्व- प्रवेश, पश्चिम- भूखंड सं. 47, उत्तर- भूखंड सं. 63, दक्षिण- भूखंड सं. 65

संपत्ति 2: संपूर्ण द्वितीय तल के समस्त वह भाग तथा अंश, जो छत / टेरेस अधिकारों के बिना हैं जो उक्त स्वामित्वधारक संपत्ति सं. 65 में से पॉकेट 06. सेक्टर-24 में है. जिसका क्षेत्र मापन 60 वर्ग मीटर, और जे रोहिणी आवासीय योजना के लेआउट प्लान, दिल्ली में स्थित है, जिसमें भूतल से लेकर के शीर्ष तल तक लिफ्ट एवं सीढियों के उपयोग के सामान्य अधिकार सिम्मिलित हैं, जो उससे संबद्ध भिम के 1/4 अनुपाताधिकारों के साथ है और जो वहां उसमें उसके अंदर पृथक बिजली, जल मीटरों और सामान्य जल-मल यानी सीवरेज संयोजनों यानी कनेक्शनों से फिट है, जो इस प्रकार परिसीमित है: पूर्व- प्रवेश, पश्चिम- भुखंड सं. 46, उत्तर- भूखंड सं. 64, दक्षिण- भूखंड सं. 66

टिप्पणी: ऋणकर्तो द्वारा टीसीएचएफएल के विरुद्ध डीआरटी ।।। दिल्ली के समक्ष एक परिवाद एसए / 86 / 2022 प्रविष्ट किया गया है। टीसीएचएफएल के विरुद्ध कोई स्थगनादेश पारित नहीं हुआ है।

नीलामी में, जनसाधारण को व्यक्तिगत रूप में अपनी बोली(लियां) जमा / प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। ऋणकर्ता(ओं) / सह-ऋणकर्ता(ओं) को एतदद्वारा इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवसों के अंदर भावी ब्याज के साथ कूल बकाया देयराशियों का भुगतान करने के लिए अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है। अंतिम अवसर का लाभ उठाकर भगतान करने में विफल रहने पर अचल संपत्ति को अनुसूची के अनुसार बेच दिया जाएगा। ई-नीलामी उस स्थिति में भी रोक दी जाएगी, यदि ब्याज एवं लागतों (विक्रय की लागत सहित) के साथ उपर्युक्तानुसार देय राशि 'प्राधिकृत अधिकारी' को भूगतान कर दी जाती है अथवा नीलामी तब भी रोक दी जाएगी यदि अधिकारी की संतुष्टि हेतु इस बात का साक्ष्य दे दिया जाता है कि ऐसे प्रतिभूत ऋण व इसके ब्याज एवं लागतों की राशि का नीलामी की तिथि से पूर्व भुगतान कर दिया गया

कोई भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति, जो इस विक्रय के संबंध में कोई भी कार्य-दायित्व निभा रहा है, यद्यपि वह कार्य-दायित्व को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में ही क्यों न निभा रहा हो, वह बोलीदान नहीं कर सकता, बेची गई अचल संपत्ति में कोई हित संपार्जित नहीं कर सकता अथवा संपार्जित करने का प्रयास नहीं कर

विक्रय जो है, वह प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली २००२ में निर्धारित शर्तों तथा निम्नलिखित भावी शर्तों के

टिप्पणीः संपत्तियों की ई-नीलामी पोर्टल https://DisposalHub.com के माध्यम से 26 अप्रैल 2022 को अप. 2.00 बजे से लेकर के अप. 3.00 बजे तक 10 मिनटों प्रत्येक के सीमित विस्तार के साथ संचालित की जाएगी।

नियम एवं शतें: (1) यहां इसमें निम्न दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट विवरण यद्यपि अधोहस्ताक्षरकर्ता की संपूर्ण जानकारी के अनुसार वर्णित किए गए हैं, तथापि अधोहस्ताक्षरकर्ता इस उदघोषणा में हुई / होनेवाली किसी त्रुटि, त्रुटिपूर्ण–विवरण अथवा चूक हेतु उत्तरदायी नहीं होंगे। बोली राशि से संबंधित, अथवा बोलीदाता से संबंधित. किसी विवाद के उत्पन्न होने की स्थिति में अचल संपत्ति को एक बार फिर से नीलामी के लिए रख दिया जाएगा, जो प्राधिकत अधिकारी के विवेकाधीन होगा। (2) अचल संपत्ति का विक्रय आरक्षित मल्य से कम पर नहीं किया जाएगा। (3) बोली वृद्धि राशि रु. 10,000/- (रुपए दस हजार मात्र) होगी। (4) संपत्ति के क्रयार्थ जमा / प्रस्तुत की गई समस्त बोलियों के साथ उपर्युक्तानुसार धरोहर राशि ''टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि" के पक्ष में आहरित शाखा पते पर भगतानयोग्य डिमांड डाफ्ट के माध्यम से संलग्न होनी चाहिए। नीलामी के उपरांत असफल बोलीदााओं को डिमांड ड्राफ्ट वापस कर दिए जाएंगे। एनईएफटी / आरटीजीएस / आईएमपीएस के माध्यम से धराज के भुगतान हेतु कृपया प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करें। (5) सर्वोच्च बोलीदाता को तब ही सफल बोलीदाता के रूप में घोषित किया जाएगा, जब वह सदैव बोलीदान हेतु विधिक रूप में अर्हककृत पाया जाता है और इसके अतिरिक्त जब उसकी बोली राशि आरक्षित मूल्य से कम नहीं हो। यह 'प्राधिकृत अधिकारी' के विवेकाधीन होगा कि वे उस स्थिति में सर्वोच्च बोली की स्वीकृति को अस्वीकार कर सकते हैं जब उन्हें यह ज्ञात हो कि प्रस्तावित मूल्य स्पष्टतः इतना अपर्याप्त है कि वह बोलीदान करने के लिए अनुचित लग रहा हो। (6) अभिलेखित कारणों के लिए यह 'प्राधिकृत अधिकारी' के विवेक पर होगा कि वे विक्रय स्थगित कर दें / उसे समाप्त कर दें। (7) अचल संपत्ति का अवलोकन जो है वह पूर्व नियुक्ति के साथ 19 अप्रैल 2022 को 11.00 बजे से लेकर के 5.00 बजे तक किया जा सकता है। (8) एक सफल बोलीदाता के रूप में घोषित हो चुके व्यक्ति को तत्काल, ऐसी घोषणा के बाद, क्रयराशि / बोली की 25 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी, जिसमें धराज राशि भी सम्मिलित होगी, और यह राशि 'प्राधिकृत अधिकारी' के पास 24 घंटों के अंदर जमा करनी होगी, और यह राशि जमा करने में चूक होने पर संपत्ति को तत्काल प्रभाव से निजी संधि द्वारा की जानेवाली नई नीलामी / विक्रय हेतू रख दिया जाएगा। (9) यदि उपरोक्तानुसार आंशिक राशि जमा कर दी जाती है तो क्रयराशि की शेष रकम का भुगतान क्रेता द्वारा 'प्राधिकृत अधिकारी' को संपत्ति के विक्रय की अभिपुष्टि की तिथि से 15वें दिवस को अथवा इससे पूर्व करना होगा, इसमें ऐसा दिवस छूट जाएगा, अथवा यदि 15वें दिन रविवार या अन्य अवकाश पड़ता है तो तब 15वां दिवस जो होगा वो अवकाशों के बाद आनेवाला प्रथम कार्यालय दिवस होगा। (10 ऊपर वर्णित अवधि के अंदर किसी भगतान में चुक होने की स्थिति में संपत्ति को निजी संधि द्वारा नई नीलामी / विक्रय हेतू रख दिया जाएगा। धराज सहित अन्य जमा राशियों को टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि. द्वारा जब्त कर लिया जाएगा और चूककर्ता क्रेता संपत्ति से संबंधित समस्त दावों से वंचित हो जाएगा। (11) टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि. को जात किसी भारग्रस्तता के विवरण, जिस हेत संपत्ति है: शन्य हैं। दावे, यदि कोई, जिन्हें संपत्ति हेतु आगे रखा गया है और कोई अन्य ज्ञात विवरण जो इसकी प्रकृति एवं मूल्य से संबंधित है: शून्य हैं। इच्छुक बोलीदाता को सलाह है कि वे संवैधानिक प्रदेयताओं सपंत्ति कर, विद्युत इत्यादि के बकायों सहित संपत्ति पर भारग्रस्तताओं के संबंध में अपने स्वयं के स्तर पर स्वतंत्र जांच-पड़ताल कर लें। (12) किसी अन्य विवरण के लिए अथवा ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण की प्रक्रिया हेतू प्रस्तावित बोलीदातागण जो हैं वे सेवा प्रदाता, मैं. नेक्सन सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड, पताः # 203, द्वितीय तल, श्री श्याम पैलेस, सेक्टर—4 एवं 5 क्रॉसिंग, रेलवे रोड, गुरुग्राम—122 006 को इसके मोबाइल नं. 91 97100 29933, 91 98100 29926, दूरभाष नं. 91 124 4 233 933, ई—मेल आईडीः CSD@disposalhub.com से अथवा श्री अरिजित भट्ट को उनकी ई-मेल आईडी: Arijit.bhatt@tatacapital.com टीसीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी, मोबाइल नं. 9029073280 पर संपर्क कर सकते हैं। कृपया अपने प्रश्नों को व्हाट्सऐप नंबर – 9029073280 पर प्रेषित करें। (13) सर्वोच्च घोषित बोली राशि पर 1 प्रतिशत का टीडीएस लागू होगा जिसका सर्वोच्च बोलीदाता द्वारा भूगतान किया जाना है। सर्वोच्च बोलीदाता को भगतान को स्वामी / ऋणकर्ता(ओं) के पैन के अंतर्गत जमा करने की आवश्यकता है और चालॉन की प्रति हमारी कंपनी के पास जमा / प्रस्तृत करनी होगी। (14) उपरोक्त विवरणों के लिए कृपया प्रतिभृत ऋणदाता की वेबसाइट में उपलब्ध निम्न लिंक https://bit.lv/3.IfFupB का संदर्भ ग्रहण करें। कपया नोट करें – टीसीएचएफएल ने इस संपत्ति के विकय / नीलामी के लिए उक्त वर्णित नीलामकर्ता

साझीदार के अलावा किसी अन्य ब्रोकर / एजेंट को कार्यव्यस्त नहीं किया है। इच्छुक पक्षकारों को इस विषय के संबंध में पूछे जानेवाले समस्त प्रश्नों एवं पूछताछों के लिए केवल अधोहस्ताक्षरकर्ता अथवा प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करना चाहिए।

स्थान : दिल्ली हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी दिनांक : 17.03.2022 टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लि.

'IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers

make necessary inquiries

before sending any monies or

entering into any agreements

with advertisers or otherwise

acting on an advertisement in

any manner whatsoever.

को उन्हें जारी की गई संबंधित मांग सचना(ओं) में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया। उपरोक्त के सिलसिले में एक बार पुनः एतदहार ऋणधारकों को निर्देश दिया जाता है कि मांग सचना की तिथि से भगतान की तिथि तक आगे के ब्याज के साथ यहां नीचे दर्शाई गई राशि का इ सूचना के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर भुगतान करें। ऋगधारकों, मांग सूचना की तिथि को बकाया राशि तथा ऋण राशि के पुनर्भुगतान के लि प्रस्तावित प्रतिभृति का विवरण इस प्रकार है: (प्रॉस्पेक्ट नं. 880329) (रु. छः लाख इकसठ हजार दो माप 350 वर्ग फीट. स्वराज आवासीय योजना. बारम रोड श्री शाहाबाज हुसैन, श्रीमती 14 मार्च, 2022, रु. 12,80,782/ बेगम. श्री शौकत हसैन (रु. बारह लाख अस्सी हजार सात र (प्रॉस्पेक्ट नं. 835774) 3613/2815, 2817 तथा 3624/2818, ग्राम कलदवास, उदयप बयासी मात्र)

एवं प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) की धारा 13(2) के अंतर्गत उक्त नियमावली के नियम 3 के साथ पठित उक

अधिनियम की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आईआईएफएल होम फाइनांस लि. (आईआईएफएल एचएफएल) (पू

में इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लि.) के प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सचना जारी कर ऋणधारक

जोखिमों एवं लागत पर उक्त अधिनियम की धारा 13(4) तथा लागू होने वाले नियमों के अंतर्गत उक्त प्रतिभृत परिसम्पत्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करेग अधिक विवरणों के लिये कृपया **शाखा कार्यालय**: आईआईएफएल एचएफएल, 12/192, आशीर्वाद गौरव प्लाजा II रा तल, शॉप नं. 3 से 6, गुमानपु कोटा-324007 तथा आईआईएफएल होम फाइनांस लि., 2रा तल, 20 वेस्टलैण्ड बिल्डिंग, पीसी ज्वैलर्स के ऊपर रेजीडेन्सी रोड, उदयपुर 313001 प्राधिकृत अधिकारी एवं अथवा **कॉर्पोरेट कार्यालयः** आईआईएफएल टावर, प्लॉट नं. 98, उद्योग विहार, फेज-IV, गुड़गाँव, हरियाणा में सम्पर्क करें स्थान : कोटा एवं उदयपुर तिथि: 17.03.2022 आईआईएफएल होम फाइनांस लि. के लि

PNb Housing

पंजीकृत कार्यालय : श्री मंजिल, अन्तरिक्ष भवन, 22, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली-110001

साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभतिकरण एवं पनर्निर्मा

शास्त्रा पता : इसी मंजिल, डीसीएम बिल्डिंग 16, बाराखम्बा रोड, सी.पी. Finance Limited मर्ड दिल्ली-110001, दूरभाष में । 011-23357170, ई-मेल : delhi@pubbousing.com

कब्जा सुचना (अचल सम्पत्ति हेत्)

जबकि अधोहरताक्षरी ने विशीय आरितवों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नियम 8(1) के तहत पीएनबी हाउसिए फाइनेंस लिमिटेड का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रवस समितवीं के उपयोग में प्रथमा औं की तिथि करित सुचना ओं की प्राप्त की तिथि से 60 दिनों के चीतर सम्बद्ध कर्जदार में से प्रत्येक खाते के सम्बद्ध ऑकत सक्तियों का पुनर्धगतन करने के लिए कहते हुए एक माँग सुचना निगंत की थी। कर्जदार में के पुनर्भगतान में असफल रहने के कारण एतदारा कर्जदारों को तथा जनसामान्य को सूचना दी जाती है कि अधीहरताक्षरों ने कवित नियमों के नियम 8 के साथ परित

विजेष रूप से कर्जदार/में तथा जनसम्बन्ध को एलहारा सम्पन्ति/याँ से किसी प्रकार का संव्यवहार न करने की चेतायनी दी जाती है और सम्पनि/याँ के साथ किसी प्रकार का संव्यवहार ऋण अनुबन्ध के अनुसार कवित राक्षि तथा उस पर व्याज के लिए पीएनबी हाउसिंग फाइनैंस लिपिटेड के प्रधार कर विषय होगा। प्रतिभूत आरिसबीं की हुन्हाने बे लिए उपलब्ध समय सीमा के विषय में कर्जदारी का भ्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) की ओर आकृष्ट किया जाता है।

कषित अधिनियम की थारा 12(4) के तरत उसे प्रदश् शक्तियों के उपभोग में प्रत्येक खाते के सम्प्रस अंकित तिथियों पर नीचे वर्णित सम्पन्तियों पर कब्जा कर लिया है।

KHI R.	ऋण स्वता सं,	कर्जदार/सह-कर्जदार/ जमानती का नाम	मींग सूचना की तिथि	बकाया गांग	कच्या करने की तिथि	गिरवीकृत सम्पत्ति का विवरण
1.	NHL/DEL/0418/512474, HOU/DEL/0418/518832 शा.का. ः दिल्ली	[PARTITION CONT. CON		ह. 97,60,417.39/- (रुपये सत्तानचे लाख साठ हजार चार सी सजह एवं उनतालीस पैसे मात्र) 05.10.2021 तक	11-03-2022 (सांकेतिक)	प्लॉट नं. 11, उसरा तल, छन के अधिक सहित, रोड नं. 31, पश्चिमी पंजाबी बा दिल्ली-110026
থাৰ	: दिल्ली	623.000		Haildean Hai		अधिकृत प्राधिक

ADVERTISEMENT FOR THE ATTENTION OF THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF

ESCORTS LIMITED

Registered Office: 15/5, Mathura Road, Faridabad, Haryana, 121003; Corporate Identification Number (CIN): L74899HR1944PLC039088 Tel: 0129 - 2250222; Fax: 0129 - 2250009. Website: www.escortsgroup.com

OPEN OFFER FOR ACQUISITION OF UP TO 37.491.556 FULLY PAID-UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH ("EQUITY SHARES"). REPRESENTING 28.42% OF THE EXPANDED VOTING SHARE CAPITAL OF ESCORTS LIMITED "TARGET COMPANY") FROM THE PUBLIC SHAREHOLDERS OF THE TARGET COMPANY BY KUBOTA CORPORATION "ACQUIRER") PURSUANT TO AND IN COMPLIANCE WITH THE REQUIREMENTS OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED (THE "SEBI (SAST) REGULATIONS") (THE "OPEN OFFER" OR "OFFER"). NO OTHER PERSON IS ACTING IN CONCERT WITH THE ACQUIRER FOR THE PURPOSE OF THIS OPEN OFFER.

This advertisement is being issued by Morgan Stanley India Company Private Limited, the manager to the Open Offer ("Manager/Manager to the Open Offer/Manager to the Offer"), for and on behalf of the Acquirer in respect of the Open Offer

This Advertisement should be read in continuation of, and in conjunction with the:

(a) public announcement dated 18 November 2021;

(b) detailed public statement dated 25 November 2021 which was published on 26 November 2021 in the following newspapers: Financial Express (English), Jansatta (Hindi), Satyajay Times (Hindi) and Navshakti (Marathi) ("Detailed Public Statement");

(c) letter of offer dated 3 March 2022 along with the Form of Acceptance-cum-Acknowledgement ("Letter of Offer"); and (d) Pre-Offer Advertisement cum Corrigendum dated 10 March 2022 which was published on 11 March 2022 in the following

newspapers: Financial Express (English), Jansatta (Hindi), Satyajay Times (Hindi) and Navshakti (Marathi). This Advertisement is being published in all such newspapers in which the Detailed Public Statement and the Pre-Offer Advertisement cum Corrigendum, was published.

Capitalised terms used but not defined in this Advertisement shall have the same meaning assigned to such terms in the

The Public Shareholders of the Target Company are requested to kindly note the following information related to the Open Offer that has already been disclosed in the Letter of Offer:

Schedule of Major Activities relating to the Open Offer

The schedule of major activities pertaining to the Open Offer, as already disclosed on page 2 of the Letter of Offer is

No.	Name of Activity	Original Schedule of Activities (Day and Date)" (As disclosed in the DLoF)	Revised Schedule of Activities (Day and Date)
1.	Issue of Public Announcement	Thursday, 18 November 2021	Thursday, 18 November 2021
2.	Publication of the DPS in newspapers	Friday, 26 November 2021	Friday, 26 November 2021
3.	Last date for filing of the draft Letter of Offer with SEBI	Friday, 3 December 2021	Friday, 3 December 2021
4.	Last date for public announcement for competing offer(s)	Friday, 17 December 2021	Friday, 17 December 2021 ^a
5.	Last date for receipt of comments from SEBI on the draft Letter of Offer (in the event SEBI has not sought clarification or additional information from the Manager to the Open Offer)	Friday, 24 December 2021	Wednesday, 23 February 2022 **
6.	Identified Date*	Tuesday, 28 December 2021	Friday, 25 February 2022
7.	Last date for dispatch of the Letter of Offer to the shareholders of the Tuesday, Target Company whose names appear on the register of members on the Identified Date Tuesday, 4 January 2022		Monday, 7 March 2022
8.	Last date by which a committee of independent directors of the Target Company is required to give its recommendation to the shareholders of the Target Company for this Open Offer	Friday, 7 January 2022	Thursday, 10 March 2022
9.	Last date for upward revision of the Offer Price and/or the Offer Size	Friday, 7 January 2022	Thursday, 10 March 2022
10.	Date of publication of Open Offer opening public announcement, in the newspapers in which the DPS has been published	Monday, 10 January 2022	Friday, 11 March 2022
11.	Date of commencement of the Tendering Period	Tuesday, 11 January 2022	Monday, 14 March 2022
12.	Date of closure of the Tendering Period	Monday, 24 January 2022	Monday, 28 March 2022
13.	Last date of communicating the rejection/acceptance and completion of payment of consideration or refund of Equity Shares to the shareholders of the Target Company	Tuesday, 8 February 2022	Monday, 11 April 2022
14.	Last date for publication of post Open Offer public announcement in the newspapers in which the DPS has been published	Tuesday. 15 February 2022	Wednesday, 20 April 2022

There has been no competing offer. Date falling on the 10° Working Day prior to the commencement of the Tendering Period. The Identified Date is only for the

purpose of determining the Equity Shareholders as on such date to whom the Letter of Offer would be sent. All the Public Shareholders (registered or unregistered), are eligible to participate in this Open Offer at any time prior to the closure of

The original schedule of activities were indicative (prepared on the basis of timelines provided under the SEBI (SAST) Regulations) and were subject to receipt of relevant approvals from various statutory/regulatory authorities.

** Actual date of receipt of SEBI comments. The web link for accessing the "Procedure for Acceptance and Settlement of the Open Offer" as already disclosed at Section VIII of the Letter of Offer at pages 47 to 51 of the Letter of Offer is as follows: https://crimg.kfintech.com/bmails/files/Escorts Tendering procedure.pdf

The web link for accessing the "Form of Acceptance-cum-Acknowledgement" as already provided at pages 72 to 81 of the Letter of Offer, with the instructions relating to the "Form of Acceptance-cum-Acknowledgement" at pages 66 to 71 of the Letter of Offer is as follows: https://crimg.kfintech.com/bmails/files/Escorts_Form_of_Acceptance.pdf 4. The web link for accessing the "Form No. SH-4 Securities Transfer" as already dispatched to the Public Shareholders holding

physical Equity Shares along with the Letter of Offer is as follows: https://crimg.kfintech.com/bmails/files/Escorts_SH4.pdf The web link for accessing Letter of Offer (also available on SEBI's website) is as follows: https://crimg.kfintech.com/bmails/files/ESCCAS_LOF.pdf

6. The Acquirer and its directors accept full responsibility for the information contained in this Advertisement (other than such information as has been obtained from public sources or provided by or relating to and confirmed by the Target Company), and undertake that they are aware of and will comply with their obligations under the SEBI (SAST) Regulations in respect of

This Advertisement would also be available on SEBI's website (www.sebi.gov.in). Issued on behalf of the Acquirer by the Manager

Morgan Stanley

Morgan Stanley India Company Private Limited SEBI Registration Number: INM000011203 Address: 18F, Tower 2, One World Center, Plot 841 Senapati Bapat Maro, Lower Parel, Mumbai - 400013, India Contact Person: Mr. Prakhar Jaju Tel: 91 22 6118 1000; Fax: 91 22 6118 1040 E-mail: escorts_openoffer@morganstanley.com Website: https://www.morganstanley.com/about-us/global-offices/india

Registrar to the Open Offer KFin Technologies Limited

▲ KFINTECH

SEBI Registration Number: INR000000221 Address: Selenium, Tower B, Plot No- 31 and 32, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad, Rangareddi - 500 032, Telangana, India Contact person: M Murali Krishna Telephone: +91 40 6716 2222; Fax: +91 40 2343 1551

Website: www.kfintech.com E-mail: el.openoffer@kfintech.com

Issued by the Manager to the Open Offer For and on behalf of the Acquirer Signed for and on behalf of Kubota Corporation (Acquirer)

Name: Seiji Fukuoka

Place: 2-47, Shikitsuhigashi 1-chome, Naniwa-ku, Osaka 556-8601 Japan

Title: General Manager, Tractor Business Planning & Control Department

Date: 16 March 2022

Adfactors 601

244901 उ0प्र0

दिनांकः 17.03.2021